



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 31 दिसम्बर, 2020
पौष 10, 1942 शक सम्वत्

कार्यालय निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश

संख्या 4/1044-2020-4-125(वाराणसी)-2014
लखनऊ, 31 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना

प0आ0-576

उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 2334/तैंतीस-1-94-149-94, दिनांक 09 मई, 1994 द्वारा संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 3 और 11(च) के अधीन राज्य सरकार द्वारा निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 को प्रतिनिहित शक्ति एवं ग्राम्य विकास विभाग के शासनादेश संख्या 1207/38-3-2000-34बी-2000, दिनांक 15 मार्च, 2000 द्वारा उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के अधीन राज्य सरकार द्वारा निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 को प्रतिनिहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, राज कुमार, निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0, लखनऊ, पंचायती राज अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 1992/33-3-2014-03रा0नि0आ0-2014, दिनांक 16 अगस्त, 2014, शासनादेश संख्या 2491/33-3-2014-03रा0नि0आ0-2014, दिनांक 27 अक्टूबर, 2020 एवं शासनादेश संख्या 62/2961-33-3-2020-03रा0नि0आ0-2014, दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 में दी गई व्यवस्थानुसार जनपद वाराणसी के विकास खण्ड काशीविद्यापीठ, हरहुआ एवं चिरईगांव की ग्राम पंचायतों की निर्गत अधिसूचना संख्या 4/815-2020-4-125(वाराणसी)-2014, दिनांक 24 नवम्बर, 2020 में विकास खण्ड काशीविद्यापीठ एवं हरहुआ की ग्राम पंचायतों के सम्बन्ध में पूर्व स्थिति में उल्लिखित प्रविष्टियों के स्थान पर संशोधित स्थिति में उल्लिखित प्रविष्टियाँ एतद्वारा स्थापित करता हूँ।

सारणी

जनपद का नाम—वाराणसी

क्र० सं०	पूर्व स्थिति			क्र० सं०	संशोधित स्थिति		
	विकास खण्ड / क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम		विकास खण्ड / क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम
1	2	3	4	1	2	3	4
1	काशीविद्यापीठ	हरपालपुर	1 हरपालपुर	1	काशीविद्यापीठ	हरपालपुर	1 हरपालपुर
2	काशीविद्यापीठ	विशुनपुर	1 विशुनपुर	2	काशीविद्यापीठ	विशुनपुर	1 विशुनपुर
3	काशीविद्यापीठ	परमानन्दपुर	1 परमानन्दपुर	3	काशीविद्यापीठ	परमानन्दपुर	1 परमानन्दपुर
4	काशीविद्यापीठ	कोरौता	1 कोरौता	4	काशीविद्यापीठ	कोरौता	1 कोरौता
			2 गोपालपुर				2 गोपालपुर
5	काशीविद्यापीठ	घाटमपुर	1 उदयराजपुर	5	काशीविद्यापीठ	घाटमपुर	1 उदयराजपुर
			2 पिलखिनी				2 पिलखिनी
			3 घाटमपुर				3 घाटमपुर
6	काशीविद्यापीठ	खुलाशपुर	1 खुलाशपुर	6	काशीविद्यापीठ	खुलाशपुर	1 खुलाशपुर
			2 बलिरामपुर				2 बलिरामपुर
7	काशीविद्यापीठ	करसड़ा	1 करसड़ा	7	काशीविद्यापीठ	करसड़ा	1 करसड़ा
8	काशीविद्यापीठ	बेटावर	1 बेटावर	8	काशीविद्यापीठ	बेटावर	1 बेटावर
9	काशीविद्यापीठ	खनांव	1 खनांव	9	काशीविद्यापीठ	खनांव	1 खनांव
			2 भुआलपुर				2 भुआलपुर
10	काशीविद्यापीठ	बच्छांव	1 बच्छांव	10	काशीविद्यापीठ	बच्छांव	1 बच्छांव
11	काशीविद्यापीठ	गजाधरपुर	1 गजाधरपुर	11	काशीविद्यापीठ	गजाधरपुर	1 गजाधरपुर
12	काशीविद्यापीठ	छितौनी कोट	1 छितौनी कोट	12	काशीविद्यापीठ	छितौनी कोट	1 छितौनी कोट
13	काशीविद्यापीठ	बन्देपुर	1 बन्देपुर	13	काशीविद्यापीठ	बन्देपुर	1 बन्देपुर
			2 खलीलपुर				2 खलीलपुर
14	काशीविद्यापीठ	माधोपुर	1 माधोपुर	14	काशीविद्यापीठ	माधोपुर	1 माधोपुर
			2 बालीपुर				2 बालीपुर
15	काशीविद्यापीठ	हरिहरपुर	1 हरिहरपुर	15	काशीविद्यापीठ	हरिहरपुर	1 हरिहरपुर
			2 गोविन्दपुर				2 गोविन्दपुर
16	काशीविद्यापीठ	केशरीपुर	1 केशरीपुर	16	काशीविद्यापीठ	केशरीपुर	1 केशरीपुर
	काशीविद्यापीठ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या-2184, 7-9-19, 42 वाराणसी / 2012 दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 के द्वारा नगर निगम वाराणसी में समाहित।					

1	2	3	4	1	2	3	4		
21	काशीविद्यापीठ	रमसीपुर	1	रमसीपुर	21	काशीविद्यापीठ	रमसीपुर	1	रमसीपुर
22	काशीविद्यापीठ	फरीदपुर	1	फरीदपुर	22	काशीविद्यापीठ	फरीदपुर	1	फरीदपुर
			2	हंसापुर				2	हंसापुर
23	काशीविद्यापीठ	मिसिरपुर	1	मिसिरपुर	23	काशीविद्यापीठ	मिसिरपुर	1	मिसिरपुर
24	काशीविद्यापीठ	पण्डितपुर	1	पण्डितपुर	24	काशीविद्यापीठ	पण्डितपुर	1	पण्डितपुर
25	काशीविद्यापीठ	जफराबाद	1	जफराबाद	25	काशीविद्यापीठ	जफराबाद	1	जफराबाद
			2	दफलपुर				2	दफलपुर
26	काशीविद्यापीठ	देल्हना	1	देल्हना	26	काशीविद्यापीठ	देल्हना	1	देल्हना
			2	भदवर				2	भदवर
27	काशीविद्यापीठ	नरउर	1	नरउर	27	काशीविद्यापीठ	नरउर	1	नरउर
			2	बखानी				2	बखानी
	काशीविद्यापीठ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या-2184, 7-9-19, 42 वाराणसी / 2012 दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।							
28	काशीविद्यापीठ	चौदपुर	1	चौदपुर	28	काशीविद्यापीठ	चौदपुर	1	चौदपुर
	काशीविद्यापीठ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या-2184, 7-9-19, 42 वाराणसी / 2012 दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।							
	काशीविद्यापीठ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या-2184, 7-9-19, 42 वाराणसी / 2012 दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।							
	काशीविद्यापीठ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या-2184, 7-9-19, 42 वाराणसी / 2012 दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।							
	काशीविद्यापीठ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या-2184, 7-9-19, 42 वाराणसी / 2012 दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।							
	काशीविद्यापीठ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या-2184, 7-9-19, 42 वाराणसी / 2012 दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।							
	काशीविद्यापीठ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या-2184, 7-9-19, 42 वाराणसी / 2012 दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।							
	काशीविद्यापीठ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या-2184, 7-9-19, 42 वाराणसी / 2012 दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।							

1	2	3	4	1	2	3	4		
	काशीविद्यापीठ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या-2184, 7-9-19, 42 वाराणसी / 2012 दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।							
29	काशीविद्यापीठ	मूडादेव	1	मूडादेव	29	काशीविद्यापीठ	मूडादेव	1	मूडादेव
30	काशीविद्यापीठ	रमना	1	रमना	30	काशीविद्यापीठ	रमना	1	रमना
			2	नँपुराखुर्द				2	नँपुराखुर्द
			3	नरोत्तमपुर खुर्द				3	नरोत्तमपुर खुर्द
31	काशीविद्यापीठ	सरायडंगरी	1	सरायडंगरी खुर्द	31	काशीविद्यापीठ	सरायडंगरी	1	सरायडंगरी खुर्द
			2	सरायडंगरी कला				2	सरायडंगरी कला
32	काशीविद्यापीठ	नरोत्तमपुर कला	1	नरोत्तमपुर कला	32	काशीविद्यापीठ	नरोत्तमपुर कला	1	नरोत्तमपुर कला
33	काशीविद्यापीठ	कुरहुआं	1	कुरहुआं	33	काशीविद्यापीठ	कुरहुआं	1	कुरहुआं
34	काशीविद्यापीठ	तारापुर	1	तारापुर	34	काशीविद्यापीठ	तारापुर	1	तारापुर
35	काशीविद्यापीठ	टिकरी	1	टिकरी	35	काशीविद्यापीठ	टिकरी	1	टिकरी
	काशीविद्यापीठ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या-2184, 7-9-19, 42 वाराणसी / 2012 दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।							
	काशीविद्यापीठ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या-2184, 7-9-19, 42 वाराणसी / 2012 दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।							
	काशीविद्यापीठ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या-2184, 7-9-19, 42 वाराणसी / 2012 दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।							
36	काशीविद्यापीठ	सुल्तानपुर	1	सुल्तानपुर	36	काशीविद्यापीठ	सुल्तानपुर	1	सुल्तानपुर
	काशीविद्यापीठ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या-2184, 7-9-19, 42 वाराणसी / 2012 दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।							
37	काशीविद्यापीठ	डाफी	1	डाफी	37	काशीविद्यापीठ	डाफी	1	डाफी

1	2	3	4	1	2	3	4		
38	काशीविद्यापीठ	भीटी	1	भीटी	38	काशीविद्यापीठ	भीटी	1	भीटी
			2	टेंगरा				2	टेंगरा
			3	राल्हूपुर				3	राल्हूपुर
39	काशीविद्यापीठ	नैपुराकला	1	नैपुराकला	39	काशीविद्यापीठ	नैपुराकला	1	नैपुराकला
	काशीविद्यापीठ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या-2470/9-1-19-53 टी0ए0/ 16 दिनांक 28 नवम्बर, 2019 के द्वारा में नगर पंचायत सूजाबाद में समाहित किया गया।							
	काशीविद्यापीठ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या-2470/9-1-19-53 टी0ए0/ 16 दिनांक 28 नवम्बर, 2019 के द्वारा में नगर पंचायत सूजाबाद में समाहित किया गया।							
40	काशीविद्यापीठ	टडियां	1	टडियां	40	काशीविद्यापीठ	टडियां	1	टडियां
41	काशीविद्यापीठ	ककरहिया	1	ककरहिया	41	काशीविद्यापीठ	ककरहिया	1	ककरहिया
42	काशीविद्यापीठ	लखमीपुर	1	लखमीपुर	42	काशीविद्यापीठ	लखमीपुर	1	लखमीपुर
43	काशीविद्यापीठ	सरहरी	1	सरहरी	43	काशीविद्यापीठ	सरहरी	1	सरहरी
			2	मनोरथपुर				2	मनोरथपुर
			3	महेशपुर (द्वितीय)				3	महेशपुर (द्वितीय)
44	काशीविद्यापीठ	छितौनी	1	छितौनी	44	काशीविद्यापीठ	छितौनी	1	छितौनी
45	काशीविद्यापीठ	बखरिया	1	बखरिया	45	काशीविद्यापीठ	बखरिया	1	बखरिया
46	काशीविद्यापीठ	कोटवां	1	कोटवां	46	काशीविद्यापीठ	कोटवां	1	कोटवां
47	काशीविद्यापीठ	अखरी	1	अखरी	47	काशीविद्यापीठ	अखरी	1	अखरी
	काशीविद्यापीठ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या-2184, 7-9-19, 42 वाराणसी/ 2012 दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।							
	काशीविद्यापीठ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या-2184, 7-9-19, 42 वाराणसी/ 2012 दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।							

1	2	3	4	1	2	3	4
		नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या-2184, 7-9-19, 42 वाराणसी/ 2012 दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।					
	काशीविद्यापीठ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या-2184, 7-9-19, 42 वाराणसी/ 2012 दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।					
	काशीविद्यापीठ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या-2184, 7-9-19, 42 वाराणसी/ 2012 दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।					
	काशीविद्यापीठ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या-2184, 7-9-19, 42 वाराणसी/ 2012 दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।					
48	काशीविद्यापीठ	कादीपुर	1 कादीपुर	48	काशीविद्यापीठ	कादीपुर	1 कादीपुर
			2 नकाईन				2 नकाईन
49	काशीविद्यापीठ	सगहट	1 सगहट	49	काशीविद्यापीठ	सगहट	1 सगहट
50	काशीविद्यापीठ	अमराखैराचक	1 अमराखैराचक	50	काशीविद्यापीठ	अमराखैराचक	1 अमराखैराचक
51	काशीविद्यापीठ	लठिया	1 लठिया	51	काशीविद्यापीठ	लठिया	1 लठिया
52	काशीविद्यापीठ	खुशीपुर	1 खुशीपुर	52	काशीविद्यापीठ	खुशीपुर	1 खुशीपुर
53	काशीविद्यापीठ	बिशोखर	1 बिशोखर	53	काशीविद्यापीठ	बिशोखर	1 बिशोखर
			2 औढे				2 औढे
54	काशीविद्यापीठ	रामपुर	1 रामपुर	54	काशीविद्यापीठ	रामपुर	1 रामपुर
			2 मीरापुर				2 मीरापुर
			3 सदलपुर				3 सदलपुर
			4 जिगमा				4 जिगमा
			5 निविया				5 निविया
55	काशीविद्यापीठ	मंगलपुर	1 मंगलपुर	55	काशीविद्यापीठ	मंगलपुर	1 मंगलपुर
56	काशीविद्यापीठ	अलाउद्दीनपुर	1 अलाउद्दीनपुर	56	काशीविद्यापीठ	अलाउद्दीनपुर	1 अलाउद्दीनपुर
57	काशीविद्यापीठ	उचगांव	1 उचगांव	57	काशीविद्यापीठ	उचगांव	1 उचगांव
			2 दाउदपुर				2 दाउदपुर
58	काशीविद्यापीठ	अनन्तपुर	1 अनन्तपुर	58	काशीविद्यापीठ	अनन्तपुर	1 अनन्तपुर
			2 सभईपुर				2 सभईपुर
59	काशीविद्यापीठ	सुरही	1 सुरही	59	काशीविद्यापीठ	सुरही	1 सुरही
60	काशीविद्यापीठ	बनकट	1 बनकट	60	काशीविद्यापीठ	बनकट	1 बनकट
			2 नेवादा				2 नेवादा

1	2	3	4	1	2	3	4		
61	काशीविद्यापीठ	घमहापुर	1	घमहापुर	61	काशीविद्यापीठ	घमहापुर	1	घमहापुर
62	काशीविद्यापीठ	भरथरा	1	भरथरा	62	काशीविद्यापीठ	भरथरा	1	भरथरा
			2	बेदौली			नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या-1494/9-7-2020-42 वाराणसी/2012 /लखनऊ दिनांक 20 दिसम्बर, 2020 के द्वारा नगर निगम वाराणसी में समाहित।		
63	काशीविद्यापीठ	केराकतपुर	1	केराकतपुर	63	काशीविद्यापीठ	केराकतपुर	1	केराकतपुर
64	काशीविद्यापीठ	भितारी	1	भितारी		काशीविद्यापीठ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या-1494/9-7-2020-42 वाराणसी/2012 /लखनऊ दिनांक 20 दिसम्बर, 2020 के द्वारा नगर निगम वाराणसी में समाहित।		
	काशीविद्यापीठ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या-2107/9-1-2019-05टी0ए0 / 14 दिनांक 23 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर पंचायत लोहता बनाया गया।							
65	काशीविद्यापीठ	भट्ठी	1	भट्ठी	64	काशीविद्यापीठ	भट्ठी	1	भट्ठी
66	काशीविद्यापीठ	धन्नीपुर	1	धन्नीपुर	65	काशीविद्यापीठ	धन्नीपुर	1	धन्नीपुर
67	काशीविद्यापीठ	महमूदपुर	1	महमूदपुर	66	काशीविद्यापीठ	महमूदपुर	1	महमूदपुर
	हरहुआ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या-2184, 7-9-19, 42 वाराणसी / 2012 दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।							
	हरहुआ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या-2184, 7-9-19, 42 वाराणसी / 2012 दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।							
	हरहुआ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या-2184, 7-9-19, 42 वाराणसी / 2012 दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।							
	हरहुआ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या-2184, 7-9-19, 42 वाराणसी / 2012 दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।							
	हरहुआ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या-2184, 7-9-19, 42 वाराणसी / 2012 दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।							

1	2	3	4	1	2	3	4		
	हरहुआ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या-2184, 7-9-19, 42 वाराणसी /2012 दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।							
		नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 1494 /9-7-2020-42 वाराणसी /2012/लखनऊ दिनांक 20 दिसम्बर, 2020 के द्वारा नगर निगम वाराणसी में समाहित।							
	हरहुआ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या-2184, 7-9-19, 42 वाराणसी /2012 दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।							
		नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या-2184, 7-9-19, 42 वाराणसी /2012 दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।							
	हरहुआ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या-2184, 7-9-19, 42 वाराणसी /2012 दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।							
		नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 1494 /9-7-2020-42 वाराणसी /2012/लखनऊ दिनांक 20 दिसम्बर, 2020 के द्वारा नगर निगम वाराणसी में समाहित।							
1	हरहुआ	मुर्दहा	1	मुर्दहां	1	हरहुआ	मुर्दहा	1	मुर्दहां
			2	धरमलपुर				2	धरमलपुर
2	हरहुआ	वेलवरिया	1	बेलवरिया	2	हरहुआ	वेलवरिया	1	बेलवरिया
			2	काजीचक				2	काजीचक
			3	सोनकडीह				3	सोनकडीह
3	हरहुआ	अटेसुआ	1	अटेसुआ	3	हरहुआ	अटेसुआ	1	अटेसुआ

1	2	3	4		1	2	3	4	
4	हरहुआ	नकछेदपुर	1	नकछेदपुर	4	हरहुआ	नकछेदपुर	1	नकछेदपुर
			2	रैचन्दपुर				2	रैचन्दपुर
			3	एकला				3	एकला
5	हरहुआ	चौका	1	चौका	5	हरहुआ	चौका	1	चौका
			2	कृष्णापुर				2	कृष्णापुर
6	हरहुआ	दशनीपुर	1	दशनीपुर	6	हरहुआ	दशनीपुर	1	दशनीपुर
7	हरहुआ	पिसौर	1	पिसौर		हरहुआ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 1494/9-7-2020-42 वाराणसी/2012/लखनऊ दिनांक 20 दिसम्बर, 2020 के द्वारा नगर निगम वाराणसी में समाहित।		
8	हरहुआ	भवानीपुर	1	भवानीपुर		हरहुआ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या-1494/9-7-2020-42 वाराणसी/2012/लखनऊ दिनांक 20 दिसम्बर, 2020 के द्वारा नगर निगम वाराणसी में समाहित।		
			2	कादीपुर			नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या-1494/9-7-2020-42 वाराणसी/2012/लखनऊ दिनांक 20 दिसम्बर, 2020 के द्वारा नगर निगम वाराणसी में समाहित।		
9	हरहुआ	दानियालपुर	1	दानियालपुर		हरहुआ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या-1494/9-7-2020-42 वाराणसी/2012/लखनऊ दिनांक 20 दिसम्बर, 2020 के द्वारा नगर निगम		
10	हरहुआ	चमांव	1	चमांव	7	हरहुआ	चमांव	1	चमांव
11	हरहुआ	पश्चिमपुर	1	पश्चिमपुर	8	हरहुआ	पश्चिमपुर	1	पश्चिमपुर
			2	शहाबुद्दीनपुर				2	शहाबुद्दीनपुर
12	हरहुआ	अहिरान	1	अहिरान	9	हरहुआ	अहिरान	1	अहिरान
13	हरहुआ	कोइरान	1	कोइरान	10	हरहुआ	कोइरान	1	कोइरान
14	हरहुआ	शिवरामपुर	1	शिवरामपुर	11	हरहुआ	शिवरामपुर	1	शिवरामपुर
15	हरहुआ	सुलेमापुर	1	सुलेमापुर	12	हरहुआ	सुलेमापुर	1	सुलेमापुर
16	हरहुआ	अहिरौली	1	अहिरौली	13	हरहुआ	अहिरौली	1	अहिरौली
			2	हरदासपुर				2	हरदासपुर
17	हरहुआ	कांकलपुर	1	कांकलपुर	14	हरहुआ	कांकलपुर	1	कांकलपुर
			2	डिहवा				2	डिहवा

1	2	3	4		1	2	3	4	
18	हरहुआ	कुरौली	1	कुरौली	15	हरहुआ	कुरौली	1	कुरौली
19	हरहुआ	हरहुआ	1	हरहुआ,	16	हरहुआ	हरहुआ	1	हरहुआ,
			2	कैलहट				2	कैलहट
			3	मंसापुर				3	मंसापुर
20	हरहुआ	चन्दीपट्टी	1	चन्दीपट्टी	17	हरहुआ	चन्दीपट्टी	1	चन्दीपट्टी
			2	नरायनपुर				2	नरायनपुर
			3	हरिशंकरपट्टी				3	हरिशंकरपट्टी
21	हरहुआ	सिंहापुर	1	सिंहापुर	18	हरहुआ	सिंहापुर	1	सिंहापुर
			2	धनेसरी				2	धनेसरी
			3	रामसिंहपुर				3	रामसिंहपुर
			4	विशुनपुर				4	विशुनपुर
			5	अनेकपुर				5	अनेकपुर
22	हरहुआ	कोईराजपुर	1	कोइराजपुर	19	हरहुआ	कोईराजपुर	1	कोइराजपुर
23	हरहुआ	भक्तपुर	1	भक्तपुर	20	हरहुआ	भक्तपुर	1	भक्तपुर
24	हरहुआ	वाजिदपुर	1	वाजिदपुर	21	हरहुआ	वाजिदपुर	1	वाजिदपुर
25	हरहुआ	दासेपुर	1	दासेपुर	22	हरहुआ	दासेपुर	1	दासेपुर
			2	वैजलपट्टी				2	वैजलपट्टी
26	हरहुआ	प्रतापपट्टी	1	प्रतापपट्टी	23	हरहुआ	प्रतापपट्टी	1	प्रतापपट्टी
			2	इदिलपुर				2	इदिलपुर
27	हरहुआ	भेलखा	1	भेलखा	24	हरहुआ	भेलखा	1	भेलखा
			2	मिर्जापुर				2	मिर्जापुर
			3	जैतपट्टी				3	जैतपट्टी
28	हरहुआ	भौमी	1	भौमी	25	हरहुआ	भौमी	1	भौमी
			2	उन्दी				2	उन्दी
			3	कोटखास				3	कोटखास
	हरहुआ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या-2184, 7-9-19, 42 वाराणसी / 2012 दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।							
		नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या-2184, 7-9-19, 42 वाराणसी / 2012 दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।							

1	2	3	4		1	2	3	4	
29	हरहुआ	सुतबलपुर	1	सुतबलपुर	26	हरहुआ	सुतबलपुर	1	सुतबलपुर
30	हरहुआ	पलिया शम्भूपुर	1	पलिया शम्भूपुर	27	हरहुआ	पलिया शम्भूपुर	1	पलिया शम्भूपुर
31	हरहुआ	नोनौटी	1	नोनौटी	28	हरहुआ	नोनौटी	1	नोनौटी
			2	पट्टी जमन प्रयागपुर				2	पट्टी जमन प्रयागपुर
32	हरहुआ	जैपार	1	जैपार	29	हरहुआ	जैपार	1	जैपार
			2	खारी				2	खारी
33	हरहुआ	पलही पट्टी	1	पलही पट्टी	30	हरहुआ	पलही पट्टी	1	पलही पट्टी
34	हरहुआ	सरैया	1	सरैया(आयर)	31	हरहुआ	सरैया	1	सरैया (आयर)
35	हरहुआ	महदेपुर	1	महदेपुर	32	हरहुआ	महदेपुर	1	महदेपुर
36	हरहुआ	भोपापुर	1	भोपापुर	33	हरहुआ	भोपापुर	1	भोपापुर
37	हरहुआ	गहुरा	1	गहुरा	34	हरहुआ	गहुरा	1	गहुरा
			2	हीरापुर				2	हीरापुर
			3	आयठ				3	आयठ
38	हरहुआ	गोसाईपुर	1	गोसाईपुर	35	हरहुआ	गोसाईपुर	1	गोसाईपुर
			2	सराय कालीदास				2	सराय कालीदास
39	हरहुआ	भैठौली	1	भैठौली	36	हरहुआ	भैठौली	1	भैठौली
40	हरहुआ	राजापुर	1	राजापुर	37	हरहुआ	राजापुर	1	राजापुर
			2	महादेवपुर				2	महादेवपुर
41	हरहुआ	रामगांव	1	रामगांव	38	हरहुआ	रामगांव	1	रामगांव
42	हरहुआ	तेवर	1	तेवर	39	हरहुआ	तेवर	1	तेवर
43	हरहुआ	गुरवट	1	गुरवट	40	हरहुआ	गुरवट	1	गुरवट
44	हरहुआ	सभईपुर	1	सभईपुर	41	हरहुआ	सभईपुर	1	सभईपुर
		नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या-2184, 7-9-19, 42 वाराणसी/2012 दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।							
45	हरहुआ	घमहापुर	1	घमहापुर	42	हरहुआ	घमहापुर	1	घमहापुर
	हरहुआ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184, 7-9-19, 42 वाराणसी/2012 दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।							

1	2	3	4	1	2	3	4		
	हरहुआ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या-2184, 7-9-19, 42 वाराणसी / 2012 दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।							
	हरहुआ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या-2184, 7-9-19, 42 वाराणसी / 2012 दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।							
	हरहुआ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या-2184, 7-9-19, 42 वाराणसी / 2012 दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।							
	हरहुआ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या-2184, 7-9-19, 42 वाराणसी / 2012 दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।							
	हरहुआ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या-2184, 7-9-19, 42 वाराणसी / 2012 दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।							
	हरहुआ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या-2184, 7-9-19, 42 वाराणसी / 2012 दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।							
	हरहुआ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या-2184, 7-9-19, 42 वाराणसी / 2012 दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।							
46	हरहुआ	भगवानपुर	1	भगवानपुर	43	हरहुआ	भगवानपुर	1	भगवानपुर
			2	सिकन्दरपुर				2	सिकन्दरपुर
			3	आशापुर				3	आशापुर
47	हरहुआ	चक्का	1	चक्का	44	हरहुआ	चक्का	1	चक्का
48	हरहुआ	भटौली	1	भटौली	45	हरहुआ	भटौली	1	भटौली
			2	दुनियापुर				2	दुनियापुर
			3	लुच्चेपुर				3	लुच्चेपुर
49	हरहुआ	सरायकाजी	1	सरायकाजी	46	हरहुआ	सरायकाजी	1	सरायकाजी
			2	महादेवपुर				2	महादेवपुर

1	2	3	4		1	2	3	4	
50	हरहुआ	बेरवां	1	बेरवां	47	हरहुआ	बेरवां	1	बेरवां
			2	पाण्डेयपुर				2	पाण्डेयपुर
51	हरहुआ	औसानपुर	1	औसानपुर	48	हरहुआ	औसानपुर	1	औसानपुर
52	हरहुआ	करोमा	1	करोमा	49	हरहुआ	करोमा	1	करोमा
			2	गहरवारपुर				2	गहरवारपुर
53	हरहुआ	अनौरा	1	अनौरा	50	हरहुआ	अनौरा	1	अनौरा
			2	गोसाईपुर				2	गोसाईपुर
54	हरहुआ	गोकुलपुर	1	गोकुलपुर	51	हरहुआ	गोकुलपुर	1	गोकुलपुर
			2	सरायस्वामी				2	सरायस्वामी
			3	सहमलपुर				3	सहमलपुर
			4	सुरवा				4	सुरवा
55	हरहुआ	गढवाँ	1	गढवाँ	52	हरहुआ	गढवाँ	1	गढवाँ
			2	रामपुर				2	रामपुर
56	हरहुआ	उदयपुर	1	उदयपुर	53	हरहुआ	उदयपुर	1	उदयपुर
			2	साईपुर				2	साईपुर
			3	तारापुर				3	तारापुर
			4	बहलोलपुर				4	बहलोलपुर
			5	निदौरा				5	निदौरा
57	हरहुआ	आदमपुर	1	आदमपुर	54	हरहुआ	आदमपुर	1	आदमपुर
			2	अमौलिया				2	अमौलिया
			3	फकीरपुर				3	फकीरपुर
			4	बनियापुर		हरहुआ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 1494 / 9-7-2020-42 वाराणसी / 2012 / लखनऊ दिनांक 20 दिसम्बर, 2020 के द्वारा नगर निगम वाराणसी में समाहित।		
58	हरहुआ	चन्दापुर	1	चन्दापुर	55	हरहुआ	चन्दापुर	1	चन्दापुर
59	हरहुआ	बलुआ	1	बलुआ	56	हरहुआ	बलुआ	1	बलुआ
			2	धूरीपुर				2	धूरीपुर
			3	बड़वांपुर				3	बड़वांपुर
			4	इटवां (भिसिरपुर)				4	इटवां (भिसिरपुर)
			5	भगतपुर				5	भगतपुर
			6	टेकीपुर				6	टेकीपुर
	हरहुआ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या-2184, 7-9-19, 42 वाराणसी / 2012 दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।							

1	2	3	4		1	2	3	4	
60	हरहुआ	बड़ालालपुर	1	बड़ालालपुर		हरहुआ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या-1494/9-7-2020-42 वाराणसी/2012/लखनऊ दिनांक 20 दिसम्बर, 2020 के द्वारा नगर निगम वाराणसी में समाहित।		
	हरहुआ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या-2184, 7-9-19, 42 वाराणसी/2012 दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।							
	हरहुआ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या-2184, 7-9-19, 42 वाराणसी/2012 दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।							
	हरहुआ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या-2184, 7-9-19, 42 वाराणसी/2012 दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।							
61	हरहुआ	बीरापट्टी	1	बीरापट्टी	57	हरहुआ	बीरापट्टी	1	बीरापट्टी
62	हरहुआ	रैसीपट्टी	1	रैसीपट्टी	58	हरहुआ	रैसीपट्टी	1	रैसीपट्टी
			2	जमालपट्टी				2	जमालपट्टी
			3	धनेज पट्टी				3	धनेज पट्टी
			4	मधईपुर				4	मधईपुर
			5	तुलसीपट्टी				5	तुलसीपट्टी
63	हरहुआ	माधोपुर	1	माधोपुर	59	हरहुआ	माधोपुर	1	माधोपुर
64	हरहुआ	पूरबपुर	1	पूरबपुर	60	हरहुआ	पूरबपुर	1	पूरबपुर
			2	खानपट्टी				2	खानपट्टी
65	हरहुआ	मोहनपुर	1	मोहनपुर	61	हरहुआ	मोहनपुर	1	मोहनपुर
			2	अमावर				2	अमावर
			3	सरैया				3	सरैया
66	हरहुआ	बहोरीपुर	1	देवनाथपुर	62	हरहुआ	बहोरीपुर	1	देवनाथपुर
			2	बहोरीपुर				2	बहोरीपुर
			3	बझियांबारी				3	बझियांबारी
67	हरहुआ	बेदी	1	बेदी	63	हरहुआ	बेदी	1	बेदी
68	हरहुआ	इन्द्रवार	1	इन्द्रवार	64	हरहुआ	इन्द्रवार	1	इन्द्रवार
			2	प्रयागपुर				2	प्रयागपुर
			3	जगासीपट्टी				3	जगासीपट्टी
			4	निमिददीपुर				4	निमिददीपुर
			5	हरिरामपुर				5	हरिरामपुर

1	2	3	4		1	2	3	4	
69	हरहुआ	आयर	1	आयर	65	हरहुआ	आयर	1	आयर
70	हरहुआ	गहनी	1	गहनी	66	हरहुआ	गहनी	1	गहनी
71	हरहुआ	औरा	1	औरा	67	हरहुआ	औरा	1	औरा
72	हरहुआ	वेनीपुर	1	वेनीपुर खुर्द	68	हरहुआ	वेनीपुर	1	वेनीपुर खुर्द
			2	अजोर पट्टी				2	अजोर पट्टी
73	हरहुआ	पुआरीकलां	1	पुआरीकलां	69	हरहुआ	पुआरीकलां	1	पुआरीकलां
74	हरहुआ	पुआरी खुर्द	1	पुआरी खुर्द	70	हरहुआ	पुआरी खुर्द	1	पुआरी खुर्द
75	हरहुआ	गोसाईपुर मोहाव	1	गोसाईपुर मोहाव	71	हरहुआ	गोसाईपुर मोहाव	1	गोसाईपुर मोहाव
76	हरहुआ	कोहासी	1	कोहासी	72	हरहुआ	कोहासी	1	कोहासी
77	हरहुआ	भटपुरवा कलां	1	भटपुरवां कलां	73	हरहुआ	भटपुरवा कलां	1	भटपुरवां कलां
78	हरहुआ	जमुनीपुर	1	जमुनीपुर	74	हरहुआ	जमुनीपुर	1	जमुनीपुर
79	हरहुआ	भोहर	1	भोहर	75	हरहुआ	भोहर	1	भोहर

प

उपर्युक्तानुसार पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या-4/815/2020-4/125 (वाराणसी)/2014, दिनांक 24 नवम्बर, 2020 उक्त सीमा तक संशोधित समझी जायेगी।

आज्ञा से,
राज कुमार,
निदेशक,
पंचायती राज, उ० प्र०।